

Date: September 20, 2021

1. **The Manager- Listing**
National Stock Exchange of India Limited
(Scrip Code: NAUKRI)

2. **The Manager- Listing**
BSE Limited
(Scrip Code: 532777)

Subject: Intimation of Publication of Notice for loss of Share Certificates

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of the newspaper publication for loss of share certificates by the shareholder of the Company published in the following editions:

- Business Standard (National Daily newspaper) on September 20, 2021
- Business Standard (Daily newspaper of the State) on September 20, 2021

Thanking you,

For **Info Edge (India) Limited**,

 

(Murlee Manohar Jain)
SVP-Secretarial
& Company Secretary

Chipping away at EPFO's benefits



TRUTH BE TOLD
HARSH ROONGTA

The interest payable by the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) on provident fund (PF) contributions by the employee of more than ₹2.5 lakh per year is now taxable. The income-tax department went ahead and notified rules requiring the EPFO to separate the accounting for all contributions made in an employee's PF account till March 31 and thereafter to separately account for employees' contribution below ₹2.5 lakh.

There has been complete silence from the EPFO on how it is going to deal with this issue and whether it has systems to deliver what the department requires.

An example will help illustrate the concerns.

Suppose an employee has a basic pay of ₹72 lakh per year and she has chosen to have the PF to be calculated on the full basic. The employee will contribute ₹8.64 lakh (12 per cent of basic) and the employer an equal sum.

From 2021-22, interest payable on ₹6.14 lakh (₹8.64 lakh minus ₹2.5 lakh) is taxable and needs to be shown separately by the EPFO. It's still not clear who will pay the tax and when. Will the EPFO be required to deduct tax at source or will the employee have to calculate the tax and pay it separately? There is always suspense on the interest rate that is payable for the year.

Very few employees are aware that they can opt out of the EPF system if their basic is more than ₹15,000 per month. This option is available only in your first job. If you enter the EPFO in

your first job, you cannot leave it (if you work for an employer with PF facilities). The EPFO has come up with a *chakravayuh* that even Dronacharya cannot match.

Another important issue is the ability to restrict your contribution to ₹1,800 per month (which is 12 per cent of ₹15,000 cited above). In the good old days when the EPF interest was tax-free, most employees chose to contribute 12 per cent of their full basic without restricting it to ₹1,800 per month. It is not entirely clear if having chosen to contribute on the full basic whether she can later restrict the contribution to ₹1,800 per month or less.

Ideally, the employee should have the flexibility to contribute any amount she wishes, now that there is a cap on tax-free interest. She must also be free to vary her contribution, subject to a statutory minimum of ₹1,800 per month.

In the same example, the employer needs to contribute ₹8.64 lakh per annum to match the employee's contribution. Of this, ₹1.14 lakh will be taxable as perks in the employee's hands since Budget 2020 made the employer contribution of more than ₹7.5 lakh taxable.

The government has been steadily chipping away at the benefits enjoyed by the EPFO. But the government seems entirely helpless at getting the EPFO to turn into a modern fund management institution like the National Pension System (NPS). The EPFO has steadfastly stonewalled any attempts at allowing mobility between the EPFO and NPS.

It's like the Communist regime in East Europe building the Berlin Wall to keep their citizens prisoners. The late Arun Jaitley had remarked in his Budget 2015 speech: "Both EPF and Employees' State Insurance have hostages, rather than clients."

Truth be told, if the government only enforces mobility between the EPFO and NPS, the subscribers will settle the argument by voting with their feet.

If the Centre only enforces mobility between the EPFO and NPS, the subscribers will settle the argument by voting with their feet

The writer heads Fee-Only Investment Advisors LLP, a Sebi-registered investment advisor

Save yourself from financial frauds

If you are vigilant, you can avoid being cheated by fraudsters

BINDISHA SARANG

India recorded 50,035 cases of cybercrime in 2020, an 11.8 per cent surge in such offences over the previous year, according to the National Crime Records Bureau (NCRB) data. The Reserve Bank of India (RBI), last week, once again cautioned bank customers of fraud, including those in know-your-customer (KYC) cases. In fact, certain frauds have become more prevalent than others, and being aware of them is the first step towards protecting yourself. Mayur Joshi, chief executive officer (CEO), Indiaforensic.com, a company engaged in the prevention, detection and investigation of frauds, says, "It is necessary to learn and read about these scams."

Here are some such frauds, their methods and what you can do to avoid them.



Follow the basics

- Use robust passwords, which is a non-word with multi-factor authentication and make it long
- Practice safe clicking — be careful while clicking on attachments, links, and emails
- Double check URLs of websites
- When using a personal laptop for office work, create a separate user account
- Keep your systems and software updated
- Change your home WiFi default settings and passwords to reduce the potential impact on their working during an attack via connected devices
- Watch what you share on social media
- If someone calls asking for sensitive information, say "No". Call the number on the reverse of your card or mentioned on the checkbook

■ KYC Fraud: Due to the pandemic, many people stopped visiting bank branches, providing fraudsters an opportunity to use KYC as a reason to engage with customers by pretending to be bankers. Ritesh Bhatia, cybercrime investigator, cybersecurity and data privacy consultant, says, "The modus operandi is simple. You get an unsolicited SMS saying your card or account will be blocked, or rewards points will be disabled — the kind of message that creates panic in the customer. And that customer naturally reacts to the SMS, without considering the legitimacy of the message." Once you call the number mentioned in the SMS, they entice you for personal details under the pretext of KYC verification. For instance, you will be asked for account or login details, card information, PIN and OTP. Bhatia says, "They may also ask you to install a remote access app, which will give them complete access to your mobile." The fraudster quickly

cleans the account empty, while the victim keeps getting SMS of the amount debited from the account.

■ What to do: Remember the KYC update will never happen via a third-party app. Bhatia says, "You should get in touch with the bank or card issuer — not on the number in the SMS, but the one on the reverse of your card — or call your bank customer care." Don't even go by web-searches, as fraudsters are also spreading fake customer care numbers of banks or UPI platforms online.

Yash Tyagi, chief technology officer (CTO), CASHe, says, "Be very careful to whom you give out your information or documents for KYC purposes as well, even if you are doing so on a website. There are many fraud sites that collect such data. Fraudsters can make copies of KYC data and use it to apply for loans." So, it's not just SMSes,

calls or email you should be wary of, but websites as well.

■ SIM-swap fraud: Swap simply means exchanging one thing for another. Let's say you have a 3G SIM card and want to upgrade to 4G. You request a swap 3G SIM for a 4G SIM from the service provider. This is an authentic SIM swap. Here, you are putting the request to your service provider who deactivates your old SIM and gives you a new one, which activates within a few hours. Our mobile phones are loaded with information, right from contact lists, photos, emails, and SMS to financial details such as ATM withdrawal alerts and one-time passwords sent by banks for Net banking transactions. Joshi says, "The SIM-swap fraud is a nightmare that many mobile holders faced during the pandemic. Many users were locked in when they started receiving messages that their SIM card has been blocked or the request for changing the SIM had been received."

Fraudsters use SIM swap techniques to steal your financial details by blocking your SIM card and exchanging it with a fake one. Joshi says, "The swappers approach the service provider (posing as a genuine card holder, with fake papers), requesting to swap the SIM. After verification, the service provider deactivates the old SIM. The fraudsters get a new active mobile SIM card." This means once the SIM is swapped they get access to your OTPs, financial accounts and card related alerts, which they used to commit the fraud.

Before contacting a service provider, the fraudster will usually engage in some form of social engineering to try and gain information about their intended victim that can be used to answer security ques-

■ What to do: Don't give away your details to anyone. If you see no service on your SIM, contact the service provider at the earliest. If your SIM has been deactivated at midnight, you can't do much about it, really.

■ UPI-related frauds: Unified payments interface (UPI) has a feature in which you or the merchant can send the user a request to collect money. This feature is being used by fraudsters on second-shopping websites. Manoj Chopra, head, innovation & product development, InfracoreTech, says, "When you try to sell an item on such a site, fraudsters feign interest in buying and send you a collect money request instead of sending money. Remember, you don't need to authorise a transaction if the money is being transferred to your account, but the fraudster makes you believe you do and you end up sharing the PIN, and your hard-earned money gets re-routed."

■ What can you do: Remember when you are receiving money in your bank account you don't have to give a PIN or OTP. Likewise, when you are receiving money in UPI you don't need to enter any PIN. Treat your PIN exactly like you treat your ATM PIN. Don't disclose it to anyone.

Business Standard DELHI EDITION

Printed and Published by Nandan Singh Rawat on behalf of Business Standard Private Limited and printed at the Indian Express (P) Ltd. A-8, Sector-7, Noida, Gautam Budh Nagar-201301 and published at Nehru House, 4 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110002

Editor : Shyamal Majumdar

RNI NO. 57376/1994

Readers should write their feedback at feedback@bsmail.in
Ph. 011-23720202, Fax: +91-11-23720201

For Subscription and Circulation enquiries please contact:
Ms. Mansi Singh
Head-Customer Relations
Business Standard Private Limited,
H/4 & 1/3, Building H, Paragon Centre, Opp. Birla Centrium, P.B. Marg, Worli, Mumbai - 400013
E-mail: subs_bs@bsmail.in
*or sms, REACHBS TO 57575

DISCLAIMER News reports and feature articles in Business Standard seek to present an unbiased picture of developments in the markets, the corporate world and the government. Actual developments can turn out to be different owing to circumstances beyond Business Standard's control and knowledge. Business Standard does not take any responsibility for investment or business decisions taken by readers on the basis of reports and articles published in the newspaper. Readers are expected to form their own judgement. Business Standard does not associate itself with or stand by the contents of any of the advertisements accepted in good faith and published by it. Any claim related to the advertisements should be directed to the advertisers concerned. Unless explicitly stated otherwise, all rights reserved by M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any printing, publication, reproduction, transmission or dissemination of the contents, in any form or by any means, is prohibited without the prior written consent of M/s Business Standard Pvt. Ltd. Any such prohibited and unauthorised act by any person/legal entity shall invite civil and criminal liabilities.

No Air Surcharge

infoedge
INFO EDGE (INDIA) LIMITED

CIN: L74899DL1995PLC068021 | Regd. Office: GF-12A, 94, Meghdoot Building, Nehru Place, New Delhi-19
Corp. Office: B-8, Sector-132, Noida-201304 (Uttar Pradesh) | Tel: 0120-3082000; Fax: 0120-3082095
Web: <http://www.infoedge.in/>; email: investors@naukri.com

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

The following share certificate(s) of the Company have been reported as lost/misplaced/stolen and the registered holder(s) of the said share certificate(s) have requested the Company for issuance of duplicate share certificate(s).

Notice is hereby given that the Company will proceed to issue duplicate share certificate(s) to the below mentioned person(s) unless valid objection is received by the Company within 15 days from the date of publication of this notice. The public is hereby warned against purchasing or dealing in anyway with the above Share Certificates. No claims will be entertained by the Company with respect to original share certificate(s) subsequent to the issue of duplicates thereof.

Name of the shareholder	Folio No.	Type of share	Certificate No.	Distinctive No.	No. of Shares
Susmitha Sam Thomas	283	Equity	800	54614922	54615321
	363	Equity	878	54615410	54615745

Any person who has/have a claim in respect of the said certificate(s) should lodge his/her/their claim with all supporting documents with the Company at its registered/corporate address. If no valid and legitimate claim is received within 15 days from appearance of this notice, the Company will proceed to issue duplicate share certificate(s) to the person listed above.

After issuance of duplicate share certificate(s), the original share certificate(s) shall stand cancelled and any person dealing with the original share certificate(s) shall be doing so at his/her risk as to costs and consequences and the Company will not be responsible for it in any way.

By Order of the Board of Directors
For Info Edge (India) Ltd.

Date: September 18, 2021
Place: New Delhi

(MM Jain)
SVP-Secretarial & Company Secretary

BANKS BOARD BUREAU
An Autonomous Body of Government of India

इंडिया एक्सिम बैंक
India Exim Bank

invites application for the position of
DEPUTY MANAGING DIRECTOR OF EXIM BANK OF INDIA

The Institution: Established in 1982, EXIM Bank provides financial assistance to exporters and importers and functions as the principal financial institution for coordinating the working of institutions engaged in financing export and import of goods and services with a view to promoting the country's international trade. The assignment shall be for a period of three years and may be extended by upto two years based on performance provided that no person shall hold the office of DMD, Exim Bank after attaining the age of 60 years. For All India Service officers/Central Services Group 'A' officers, extant guidelines on deputation tenure shall apply.

Eligibilities:
(A) Candidate, not be more than 55 years of age as on September 8, 2021 with a Post-graduate University degree preferably in specified subjects/ courses Or a Graduate degree with specified professional qualifications; and having worked for at least 18 years, as on September 8, 2021, in Scheduled Commercial Banks (SCBs)/ Financial Institution (FIs) / Other Public Sector Organisations in financial sector, including 2 years operational experience preferably in International Finance/ Export Credit Appraisal; and out of the 18 years' experience, at least 2 years of experience should be at the highest level below the Board Level.
(B) All India Service Officers/ Central Services Group 'A' Officers serving at the level of Director/ Director Equivalent or above to/ in Govt. of India with a minimum 15 years of experience of which 2 years' experience as Director/ Deputy Secretary to the Govt. of India is mandatory in the field of Finance/ Industrial Development or International Trade or Export Credit; OR State Govt. Officers serving at an equivalent level with a minimum of 15 years of experience of which 2 years' mandatory experience in the field of Finance/ Industrial Development or International Trade or Export Credit shall be eligible to apply 'On Deputation' basis. The cut-off date for above eligibilities shall be September 08, 2021.
For details of the other eligibility terms and conditions, please see the advertisement on <https://www.banksboardbureau.org.in/> under the "Vacancies" tab.
How to apply: Interested candidates can apply online through the link available on <https://www.banksboardbureau.org.in/> under the "vacancies" tab or directly at <https://www.research.net/indiaexim2021>
Last date of application: 5:00 pm on 20-October-2021
Note: Further details including corrigendum, if any, shall be published only on the Bureau's website.

CHADHA PAPERS LIMITED
REGD. OFFICE : CHADHA ESTATE, NAINITAL ROAD, BILASPUR, RAMPUR- 244921, UTTAR PRADESH
CIN: L21012UP1999PLC01678
Ph: 0120-4120849, 4216287, 4106191 Fax: 0120-4106161
Email: chadhapapersltd@gmail.com
Website: www.chadhapapers.com

NOTICE OF 31st AGM, BOOK CLOSURE AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 31st Annual General Meeting of the "Chadha Papers Limited" will be held at the registered office of the Company at Chadha Estate, Nainital Road, Bilaspur, Rampur-244921, Uttar Pradesh on Thursday, 30th September, 2021 at 02:30 p.m.

In terms of Section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Act and Rules) the notice setting out the business to be transacted at the AGM along with the explanatory statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013, and Annual Report of the Company for the financial year 2020-21 have been sent to the shareholders, whose email id is registered with the company/RTA/Depository Participants and whose email id is not registered are requested to update their email address with the company/RTA, in case of shares held in physical mode by sending the request at chadhapapersltd@gmail.com or RTA at admin@skylinera.com and Depository participants in case of shares held in demat mode. The company has provided its shareholders remote e-voting facility in compliance with the section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Company has engaged CDSL as the authorized agency to provide e-voting facility. The details as required pursuant to the Act and rules are as under:

- The cut-off date to determine eligibility to cast votes by electronic voting is 23rd September, 2021. The e-voting shall be open for three (3) days, commencing at 09:00 A.M. on Monday 27th September, 2021 and ending at 5:00 P.M. on Wednesday on 29th September, 2021. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.
- The members who have not cast their votes by remote e-voting can exercise their voting rights at the AGM. The Company will make arrangements of ballot papers in this regards at the AGM venue.
- A member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again at the meeting.
- A person, whose name is recorded in the register of members as on cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the meeting through ballot papers, person who acquires shares and becomes shareholder of the Company after issue of the notice and holding shares as of the cut-off date can do remote e-voting by obtaining the login-id and password by sending an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com by mentioning their Folio No. However, if such shareholder is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user-id and password can be used for casting your vote.
- The Company has appointed Mr. Manoj Mandal, Company Secretary in Practice, as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

For detailed instructions pertaining to e-voting, members may please refer to the section "Notes" in Notice of the Annual General Meeting. In case of queries or issues pertaining to e-voting procedure, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the downloads section of www.evotingindia.com or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact to Mr. Shaan Mohammad, Company Secretary, email id: chadhapapersltd@gmail.com Phone No.- 9953595049 Address Chadha Estate, Nainital Road, Bilaspur, Rampur-244921, (U.P.).

The notice of AGM is available on the company's Website [chadhapapers.com](http://www.chadhapapers.com) and CDSL website <https://www.evotingindia.com>

Further in terms of Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 and section 91 of the Companies Act 2013 and applicable rules thereunder, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 23rd September, 2021 to Thursday, 30th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 31st AGM to be held on Thursday, 30th September, 2021.

By the order of the Board
For Chadha Papers Limited

58-
Amanbir Singh Sethi
(Whole Time Director)
DIN:-01015203

Place: Bilaspur (U.P.) Address: CTC061 The Crest Park Drive, NI FS Gunioram Harvana-172011

RITES LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)

NOTICE INVITING E-TENDERS

G.M (Projects)/RITES Ltd, Kolkata for and on behalf of NFR, invites online percentage rate bids on double packet system for the following works:

NIT No. 14/OT/RITES/RPO-KOLURE Works-NFR-BPB/OHE/2021 DATED 17.09.2021

Name of Work- Design, Supply, Erection, Testing & Commissioning of 25 KV, OHE works, Switching Posts (SP/SSP) Works, SCADA (Supervisory Remote Control and Data Acquisition) Works, Bridge Mast Foundation Works/Holding Arrangements of Masts on Bridges & Traction Substations works and other allied works on existing track of Single Line Section of Lumding-Badarpur Section Of Lumding Division of under Northeast Frontier Railway (NFR), Assam, India
Estimated Cost: ₹147.54 Cr **Earnest Money:** NA **Period of completion:** 18 (Eighteen) months. **Last time & date of submission of bid:** upto 11.00 hrs. on 09.10.2021. The bid forms and other details can be obtained from the website <https://etenders.gov.in/e procure/app>. Amendment/Corrigendum, if any, shall be hosted online only.

CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(A Navarata Govt. of India Undertaking)
41 Shikhspear Sarani, DUCKBACK HOUSE, 5th Floor, Kolkata - 700017 Ph- 033-2263 7101 - 05

Tender Notice (E-tender cum Reverse Auction mode only)

Online open e-tender cum Reverse Auction in two bid system are invited for engagement of CHA at LCS-Patrapole through online from the website www.tenders.gov.in/CCIL.

Tender No.: CONKOL/AREA-IV/CHALCS-PETRAPOLE/2021/01

Name of Work: Appointment of CHA for Customs formalities at LCS Patrapole for Border crossing of EXIM container rakes for Bangladesh (E-tender cum Reverse auction in two bid mode)

Estimated Cost: Rs. 41,65,164/- per annum. (approx.)

Period of Contract: 1+1 years

Cost of Document: Rs. 1180/- inclusive of all taxes and duties through e-payment.

Tender Processing Fee: Rs. 1720/- inclusive of all taxes and duties (Non-refundable) through e-payment.

Date of Sale (Online): From 20-9-2021, 15:00 hrs. to 05-10-2021 (upto 1600 hrs.)

Date & Time of submission of tender: On or before 06-10-2021 upto 15:00 Hrs.

Date & Time of opening of tender: 07-10-2021 at 15:30 Hrs.

Note: Corrigendum/Addendum/Amendments/clarifications, etc. if any, shall be hosted on CONCOR website only (www.concorindia.com). CONCOR reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reason thereof. For complete details log on to www.tenders.gov.in

Sd/-
AREA HEAD-AREA IV

Form G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST
(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS	
1. Name of the Corporate Debtor	M/s BIL Infracore Limited
2. Date of incorporation of corporate debtor	29/07/2010
3. Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, Kolkata
4. Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U45400WB2010PLC151807
5. Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	37/2, Chinarpark, New Town, Rajarhat Main Road, PO - Hallara, Kolkata Parganas North, West Bengal- 700157
6. Insolvency commencement date of the corporate debtor	28-07-2021 vide order passed by NCLT, Kolkata Bench
7. Date of invitation of expression of interest	18th September, 2021
8. Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Available at website of the Company i.e. http://www.bilinfra.tech/
9. Norms of ineligibility applicable under section 29A are available at:	website of the Company i.e. http://www.bilinfra.tech/
10. Last date for receipt of expression of interest	8th October, 2021
11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	9th October, 2021
12. Last date for submission of objections to provisional list	14th October, 2021
13. Date of issue of final list of prospective resolution applicants	15th October, 2021
14. Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	9th October, 2021
15. Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information	Shall be shared with all prospective resolution applicants eligible to receive under regulation 36B (1) of IBCP (IRCP) Regulations, 2016
16. Last date for submission of resolution plans	10th November, 2021
17. Manner of submitting resolution plans to resolution professional	Details shall be provided in the RFRP documents
18. Estimated date for submission of resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	23rd January, 2022
19. Name and registration number of IBCP/PA-001/IP-P00087/2017-18/10183	Subodh Kumar Agrawal IBCP/PA-001/IP-P00087/2017-18/10183
20. Name, Address and e-mail of the resolution professional, as registered with the Board	Subodh Kumar Agrawal 1, Ganesh Chandra Avenue, R No. 301, Kolkata 700 013, subodhka@gmail.com
21. Address and email to be used for correspondence with the Resolution Professional	1, Ganesh Chandra Avenue, R No. 301, Kolkata 700 013, grp.bilinfra@gmail.com
22. Further Details are available at or with	Website of the Company i.e. http://www.bilinfra.tech/ / Can also be obtained by sending a request at email ID as mentioned in para 20 and 21 above
23. Date of publication of Form G	20th September, 2021

Subodh Kumar Agrawal, Resolution Professional
IBC/PA-001/IP-P00087/2017-18/10183
1, Ganesh Chandra Avenue, R No. 301, Kolkata 700 013
For M/s BIL Infracore Limited
Date: 18th September, 2021
Place: Kolkata

GROW YOUR BUSINESS WITH BUSINESS STANDARD - THE SMART CHOICE TO REACH THOSE WHO MATTER!

Write to sales@bsmail.in now, for a customised solution to your business requirements

Business Standard
Insight Out

This PDF was originally uploaded to Business Standard Newspaper - ePaper (https://t.me/bs_epaper). Subscribe now to get this edition before anyone else!! Backup channel: @news_backup

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का प्रत्यक्ष उपकरण)
41 शेक्सपियर रोड, इन्दौर कैंम्प, डी.डी. भवन, कोलकाता-700017 फोन - 033-22837101-05
www.tenderzard.com/CDL से ऑनलाइन दो बोली प्रणाली आमंत्रित की जाती है।

निविदा सूचना (केवल ई-निविदा-सह-रिसर्स ऑनलाइन पद्धति)

ऑन-लाईन खुली ई-निविदा सह-रिसर्स ऑनलाइन के माध्यम से एलसीएस-पेट्रोलियम से सौंपार कार्य हेतु बसाइट www.tenderzard.com/CDL से ऑनलाइन दो बोली प्रणाली आमंत्रित की जाती है।

निविदा का नाम	कोल/केओएल/एरिया-4/सौंपार/एलसीएस-पेट्रोलियम 2021/01
कार्य का नाम	बालासोर के लिए एलसीएस-पेट्रोलियम से सौंपार कार्य हेतु बसाइट www.tenderzard.com/CDL से ऑनलाइन दो बोली प्रणाली आमंत्रित की जाती है।
अनुमानित लागत	रु. 41.65.164/-प्रतिवर्ष (संगम)
अनुबंध की अवधि	141 वर्ष
दस्तावेज की कीमत	रु. 1180/- रुमी कर एवं प्रमाण सहित ई-मुद्राणत के माध्यम से
निविदा प्रक्रिया शुरू	रु. 4720/- रुमी कर एवं प्रमाण (ऑन-प्रोटीड) सहित ई-मुद्राणत के माध्यम से
बिडों की तिथि (ऑनलाइन)	20.09.2021 (15.00 बजे) से 05.10.2021 (16.00 बजे तक)
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	06.10.2021 को 15:00 बजे तक या उससे पूर्व
निविदा सूचने को तिथि एवं समय	07.10.2021 को 15:30 बजे

नोट: बुधवार/परिशुद्ध/संशोधन/संशोधन/आदि, यदि कोई होगा, तो उसे केवल कौनकर वेबसाइट (www.concordia.co.in) पर प्रकाशित किया जाएगा। कौनकर विना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार रहता है। पूर्ण विवरण के लिए www.tenderzard.com पर लीग ऑन करें।

हस्ता/—
एरिया है.क, एरिया-4

पंजीकृत कर्त्ता सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) परिशिद्ध - IV (दिवस 8(1) के अन्तर्गत)

जबकि अधोस्तराधिकारों में पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारों के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिनिधित्व करने एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का सं. 54) की धारा 13(12) प्रावधान अधिनियम (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रवृत्त अधिकारों के प्रयोग में ऋणी श्री **राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रामरत्नराम शर्मा, ग्राम-बसई नवाब, चरहीरी-सैपड़, जिला-धौलपुर (राज.)** पर मांग सूचना दिनांक **12.05.2021** पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि/नोटिस को तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि रु. **9,48,799/-** (रुपये नौ लाख अठ्ठातीस हजार सात सौ नव्यानेक मात्र) दिनांक **31.03.2021** तक एवं आगे का ब्याज एवं अन्य प्रभार का पुनर्गठन करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्गठन करने में असफल होने पर एतद्वारा ऋणी और आम जनता को सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित आस्तियों के दिनांक **16 माह सितंबर, वर्ष 2021** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उक्त पर प्रवृत्त शक्तियों के प्रयोग में एलसीएस नीचे बतलाने वाली सम्पत्तियों को सांकेतिक कब्जे में ले लिया है।

ऋणी को विशिष्टता एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्तियों के साथ कोई संयोजन नहीं करने की धैर्यवानी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किया गया कोई भी संयोजन पंजाब नेशनल बैंक शाखा-बसई नवाब, जिला-धौलपुर (राज.) की राशि रु. **9,48,799/-** (रुपये नौ लाख अठ्ठातीस हजार सात सौ नव्यानेक मात्र) दिनांक **31.03.2021** तक एवं आगे का ब्याज एवं अन्य प्रभार के अंतर्गत होगा। ऋणी का ध्यान, प्रतिभूति आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपरोक्त समय में, अधिनियम की उपधारा (8) एवं धारा 13 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री महावीर प्रसाद शर्मा पुत्र रामरत्नराम शर्मा के नाम से भूमि एवं भवन आवासीय मकान जो गांव बसई नवाब, तहसील: सैपड़, जिला-धौलपुर, राजस्थान में स्थित है।

प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नेशनल बैंक
दिनांक: 16.09.2021 स्थान: बसई नवाब, धौलपुर

Form No. URC-2
Advertisement giving notice about registration under
Part I of Chapter XXI
[Pursuant to section 374(b) of the companies Act, 2013 and rule 4(1) of the companies (Authorized to Register) Rules, 2014]

1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application has been made to the Registrar at Delhi and Haryana that M/s. WEGVORAUSA partnership firm may be registered under the Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as company limited by shares.

2. The principal objects of the company are as follows:
To take over the running business of M/s. WEGVORAUSA (PARTNERSHIP FIRM) relating to business of Exhibitions, Trade Fairs, Events, travel and project management and to carry related business activities.

3. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the office at F-322A, Adarsh House, 1st Floor, Lado Sarai, New Delhi - 110030.

4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at ROC Delhi & Haryana, 4th Floor, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi - 110019, within twenty-one days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office.

Dated this 20th day of September 2021. For WEGVORAUSA SD/- (Thomas James) Partner

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-1, दिल्ली
बोधी मंजिल, जीवन तारा भवन, बार्सियासैंड स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

ओ.सं. 150/2020
इलाहाबाद बैंक
आवेदक

व्यक्त	मेसर्स आर एंड डी क्लोडिंग इंक और ओआरएस प्रतियोगी
--------	--

प्रति,
1. मेसर्स आर एंड डी क्लोडिंग इंक, एक साझेदारी फर्म, अपनी साझेदारों के माध्यम से इकाई सं. ए-5-7, सेक्टर-80 फेज-2, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर-201305.
इसके अलावा ए-27-बी, साई कुण्डित पंचशील विहार, नई दिल्ली-110018 पर।
इसके अलावा 118-ए, खानपुर, नई दिल्ली-110082 पर।
2. श्री प्रदीप कुमार साहोबाद मेसर्स आर एंड डी क्लोडिंग इंक, एक साझेदारी फर्म ए-27-बी साई कुण्डित पंचशील विहार, नई दिल्ली-110018 इसके अलावा 118-ए, खानपुर, नई दिल्ली-110082 पर इसके अलावा इकाई सं. ए-5-7 सेक्टर-80 फेज-2, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर-201305।
इसके अलावा खरसरा सं. 95.4, गांव बाणपुराता तहसील दादरी उत्तर प्रदेश-201301 पर।
3. श्रीमती रेखा कुशवाहा साहोबाद, मेसर्स आर एंड डी क्लोडिंग इंक, एक साझेदारी फर्म ए-27-बी साई कुण्डित पंचशील विहार, नई दिल्ली-110018 इसके अलावा 118-ए, खानपुर, नई दिल्ली-110082 पर।
इसके अलावा इकाई सं. ए-5-7 सेक्टर-80 फेज-2, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर-201305 पर इसके अलावा खरसरा सं. 95.4, गांव बाणपुराता तहसील दादरी उत्तर प्रदेश-201301 पर।

जैसाकि उपरोक्त नाम के आवेदक ने रुपये 27, 17, 087/- (रुपये सत्रासठ लाख सत्रह हजार और सत्तरासी मात्र) की वसूली के लिए आगे से विवरण सामान्य स्थापित किया है और जबकि न्यायाधिकरण श्री न्यायाधीश के लिए यह विवरण मांग है कि साधारण शर्तों से आवेदकी सेवा करें यह संबंध नहीं है। सुरक्षित, यह सूचना आपको निर्दिष्ट करने हेतु विद्यमान बना दि जाती है कि दिनांक 27.10.2021 को आदि 10.30 बजे पर माननीय न्यायाधिकरण के स.स.म. उम्मीदवारों के (अधिकारी जानकारी के लिए कृपया डीआरटी वेबसाइट www.etrabnalu.gov.in का संदर्भ करें), एवं फोन नंबर पर संसर्क करें - 011-23748473।
को सूचना है कि उपरोक्त दिन पर इस मामले में न्यायाधिकरण के सामने उम्मीदवारों में आपकी विफलता होने पर, मामले को ध्यान और आपकी अनुपस्थिति में फेरता किया जाएगा।
दल रसी मेसारी की स्थिति के कारण, सभी मामलों को बीडिंग कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उदघाटन जाएगा और उस उद्देश्य के लिए।
(i) सभी अधिकार/वाचकरी "सिस्को वेबवैश" एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके,
(ii) "रजिस्ट्रार/रिक्वरी ऑफिसर-1/और रिक्वरी ऑफिसर-11 द्वारा लिखित जाने वाले सूचनाई के जरिए मामलों की अगली दिनांक के लिए "मीटिंग आईडी" और "पासवर्ड" सार्वजनिक सूचना प्रेषक के तहत डीआरटी आधिकारिक पोर्टल यानी "drt.gov.in" पर अगली दिनांक से एक दिन पहले उपलब्ध होगा।
(iii) किसी भी आकर्षक क्वे में अधिका/वाचकरी संबंधित अधिकारी से फोन नंबर 011-23748473 पर संसर्क कर सकते हैं।
इस 13 सितंबर 2021 को न्यायाधिकरण की मुहर के साथ और मेरे हाथ से दिया गया।

इस न्यायाधिकरण के आदेश से प्रति रजिस्ट्रार

प्रतिवादी आगे की पुस्तिका के लिए निम्न उल्लेखित फोन नंबर पर संसर्क कर सकते हैं।
श्री अमित के.अर, एलडी-उज्ज्वली, डीआरटी-1, नई दिल्ली।
फोन संख्या: 011-23748473, ईमेल: drt1delhi-df@nic.in

THE FEDERAL BANK LTD.
YOUR PERFECT BANKING PARTNER
पंजी, कार्यालय: अजमेरा, कर्णा

गोल्ड की निजी बिडों के लिए सूचना

सूचना से संबंधित सभी को एतद्वारा सभी को सूचित किया जाता है कि बैंक की नीचे वर्णित शाखाओं के निम्नलिखित गोल्ड लोन खातों में गिरवी सौने के आभूषणों को जो छूटने के लिए ओवरदेय हैं और जो कई सूचनाओं के बाद भी निमित्त नहीं किए गए हैं, को 04.10.2021 तक या उसके बाद संबंधित शाखाओं में बिडों के लिए रखे जाएंगे। शाखा/स्थान: फेडरल बैंक लिमिटेड, ऑल इंडिया रेडियो के सामने, 5 सुभाष रोड, रोहतक, जिला संख्या: 1656400013805 सीमा के नाम पर

स्थान: रोहतक शाखा प्राधिकृत दिनांक: 20.09.2021 शाखा प्राधिकृत फेडरल बैंक लि.

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपकरण
A Government of India Undertaking

ई-नीलामी सूचना

सिंडिकेट Syndicate

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 सहपठित सुरक्षित हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के अन्तर्गत ई-नीलामी द्वारा अचल सम्पत्तियों की विक्रय सूचना

ऋणी/जमानतकर्ता को विशेष रूप से व सर्वसाधारण को सामान्य रूप से सूचित किया जाता है कि निम्न वर्णित सुरक्षित ऋण प्रदाता बैंक द्वारा बंधक/प्रीभारित अचल सम्पत्ति का केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सांकेतिक कब्जा लिया गया है। बंधक सम्पत्ति की बिडों "जो है, जो है, जैसी है एवं जैसी भी स्थिति में है" के आधार पर की जायेगी।

ऋणियों एवं बंधककर्ताओं के नाम व पते	बकाया राशि	सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य प्रतिशत राशि 10%
शाखा: फिरोजाबाद तिलक नगर, सम्पर्क करें: शाखा प्रबन्धक, फोन: 9412751063, ई-मेल: cb18814@canarabank.com			
ऋणी- मै. कंचन ज्वैलर्स प्रोप. प्रभाकर वर्मा पुत्र हजारी लाल वर्मा, पता- मकान निकट चंद्रावर चौराहा, सदर बाजार, फिरोजाबाद, गारदर/बंधकता- मधुकर वर्मा पुत्र हजारी लाल वर्मा पता- मकान नं. 761, सुभाष नगर, अमर उजाला स्ट्रीट आर्य नगर, जलेश रोड, फिरोजाबाद	₹ 9,10,906.57 दि. 30.09.2017 से ब्याज व अन्य खर्चें	भूमि एवं भवन स्थित खसरे नं. 121 मौजा खलीज कोज (कां.नं. 1144) हेड क्वार्टर डबाराई के सामने फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, एरिया- 102.30 वर्ग मी., संपत्ति श्री मधुकर वर्मा पुत्र हजारी लाल वर्मा के नाम पर, चौहददी: पूर्व- दिलीप कुशवाहा की संपत्ति, पश्चिम- रास्ता 15' चौड़ा, उत्तर- विजय कुमार वर्मा की संपत्ति, दक्षिण- विजय श्री की संपत्ति।	₹ 12,57,300/- ₹ 1,27,530/-
ऋणी- मै. शिवानी आचरन स्कूप प्रोप. हरि सिंह पुत्र प्यारे लाल पता- मकान नं. 87, भरत नगर, जलेश रोड, फिरोजाबाद, गारदर/बंधकता- श्रीमती कमलेश पत्नी हरि सिंह रावैर पता- मकान नं. 12, भरत नगर, जलेश रोड, फिरोजाबाद	₹ 11,20,735.90 दि. 28.02.2014 से ब्याज व अन्य खर्चें	आवासीय संपत्ति नगर निगम नं. 12, मोहल्ला भरत नगर, मौजा सुखमलपुर निजाबाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, एरिया- 1311.75 वर्ग फीट, संपत्ति श्रीमती कमलेश पत्नी हरि सिंह रावैर के नाम पर, चौहददी: पूर्व- श्रीमती ओमवती एवं शकुंतला का प्लॉट, पश्चिम - श्री राम शंकर का प्लॉट, उत्तर- गल्ली/रास्ता 12 फीट चौड़ा, दक्षिण- श्री किशन का प्लॉट।	₹ 15,57,000/- ₹ 1,55,700/-

निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि व समय: 19.10.2021 सायं 5.00 बजे तक
ई-नीलामी की दिनांक व समय: 20.10.2021 प्रातः 11.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक

ऋणियों एवं बंधककर्ताओं के नाम व पते	बकाया राशि	सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य प्रतिशत राशि 10%
शाखा: धूमरी, सम्पर्क करें: शाखा प्रबन्धक, फोन: 8192800029, ई-मेल: cb0398@canarabank.com			
ऋणी- श्री शिव कुमार सिंह चौहान पुत्र लट्ठी सिंह, पता- निवासी ग्राम खावा शेखपुरा एटा, यू.पी. गारदर- श्रीमती। सुनीता पत्नी श्री. शिव कुमार सिंह चौहान, पता- निवासी ग्राम खावा शेखपुरा, एटा	₹ 50,96,214.29 दि. 01.04.2019 से ब्याज व अन्य खर्चें	1. व्यावसायिक संपत्ति स्थित धूमरी सिद्धपुरा रोड, एटा, एरिया- 40x185 वर्ग फीट, संपत्ति श्री शिवकुमार सिंह पुत्र श्री लट्ठी सिंह के नाम पर, चौहददी: पूर्व- श्री राम शंकर सिंह की संपत्ति, पश्चिम- श्री कमलेश की संपत्ति, उत्तर- सड़क, दक्षिण- वज्रु लट्ठी सिंह कालेज। 2. संपत्ति स्थित धूमरी तह. अलीगंज, जिला एटा, एरिया- 121.83 वर्ग गा, संपत्ति श्रीमती सुनीता पत्नी श्री शिव कुमार सिंह के नाम पर, चौहददी: पूर्व- श्रीमती, पश्चिम- श्री योगेंद्र कुमार की संपत्ति, उत्तर- खुला प्लॉट, दक्षिण- सड़क।	₹ 79,74,000/- ₹ 7,97,400/- ₹ 30,76,000/- ₹ 3,07,600/-

निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि व समय: 07.10.2021 सायं 5.00 बजे तक
ई-नीलामी की दिनांक व समय: 08.10.2021 प्रातः 11.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक

इ एम डी खाते का विवरण A/C No. 8331296000001, IFSC Code: CNRB0008331

बिडों के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया केनरा बैंक को बसाइट www.canarabank.com में दिए गए लिंक "ई नीलामी" देखें या सेवा प्रदाता मेसर्स **M/S Antares system ltd**, सम्पर्क करें- श्री कुशल बोस, 07686913157, ईमेल आईडी: kushal.b@antaresystems.com से संसर्क करें नीलामी/बोली केवल वेबसाइट www.bankauctionwizard.com के माध्यम से "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" के माध्यम से होगा। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी बिडों कार्यवाही में भाग लेने से पहले विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट देखें।

स्थान: एटा दिनांक: 20-09-2021 प्राधिकृत अधिकारी

सिखोरिटाईजेशन एंड रिस्क-ट्रूकरण ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एफोर्समेंट ऑफ सिखोरिटाई इंटरेस्ट एक्ट, 2002
(कानून) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (₹)	गिरवी संपत्ति(ओं) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (₹.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. HLLAD00459225 HILLMOT प्रतियोगी (आर्यन ऐशवर्क नेटवर्क के मालिक) 2. सरस्वती मेहता	प्लॉट नंबर 40/7, 1 ली मंजिल, चावला पार्क के सामने, नई दिल्ली-110008	19.08.2021	₹. 94,81,302.61 (रुपए चौरानवे लाख इक्कीसी हजार तीन सौ दो और इकसठ पैसे मात्र) 19.08.2021 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्चा में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लॉ) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले(लॉ) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्गठन करने में अक्षम होने के कारण उधार लेने वाले(लॉ) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडों के भीतर निष्पादनपर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई हैं।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्वारा उधार लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लॉ) का आह्वान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागू, तथा शुल्कों सहित उधार स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संग्रहीत बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी उधार के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, "कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोर्टेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिडों के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिखोरिटाई क्रेडिटर्ड द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संग्रहीत बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता।"

सरफेसी अधिनियम की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिडों, पट्टे के माध्यम से अन्याया नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्ण लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित है।

इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड के लिए प्राधिकृत अधिकारी

सिखोरिटाईजेशन एंड रिस्क-ट्रूकरण ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एफोर्समेंट ऑफ सिखोरिटाई इंटरेस्ट एक्ट, 2002
(कानून) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (₹)	गिरवी संपत्ति(ओं) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (₹.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. HLLAD00459225 HILLMOT प्रतियोगी (आर्यन ऐशवर्क नेटवर्क के मालिक) 2. सरस्वती मेहता	प्लॉट नंबर 40/7, 1 ली मंजिल, चावला पार्क के सामने, नई दिल्ली-110008	19.08.2021	₹. 94,81,302.61 (रुपए चौरानवे लाख इक्कीसी हजार तीन सौ दो और इकसठ पैसे मात्र) 19.08.2021 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्चा में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लॉ) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले(लॉ) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्गठन करने में अक्षम होने के कारण उधार लेने वाले(लॉ) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडों के भीतर निष्पादनपर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई हैं।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्वारा उधार लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लॉ) का आह्वान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागू, तथा शुल्कों सहित उधार स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संग्रहीत बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी उधार के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, "कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोर्टेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिडों के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिखोरिटाई क्रेडिटर्ड द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संग्रहीत बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता।"

सरफेसी अधिनियम की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिडों, पट्टे के माध्यम से अन्याया नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्ण लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित है।

इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड के लिए प्राधिकृत अधिकारी

सिखोरिटाईजेशन एंड रिस्क-ट्रूकरण ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एफोर्समेंट ऑफ सिखोरिटाई इंटरेस्ट एक्ट, 2002
(कानून) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

अनु. क्र.	कर्जदाता (ओं) का नाम (₹)	गिरवी संपत्ति(ओं) का विवरण (बी)	एन.पी.ए की तारीख (सी)	बकाया राशि (₹.) (डी)
1.	कर्ज खाता क्र. HHLBH00197354 रणधीर सिंह 2. रजनी देवी 3. राज बाला 4. सुनीता देवी	सूनिट नंबर-ई-004, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक-लोटस, ओमेक्स पैनोना सिटी, भिवाड़ी, राजस्थान - 301019	28.06.2021	₹. 11,73,240 (रुपए प्यारह लाख तिहतर हजार दो सौ चालीस मात्र) 28.06.2021 के अनुसार
2.	कर्ज खाता क्र. HHLBH00183452 1. जगदेव डोगरा 2. नीलम डोगरा	प्लोर नंबर- ई-69, फर्स्ट फ्लोर, रौलेट फ्लोर, पीयूष सिटी भिवाड़ी, अजमेर बायपास रोड पर पीयूष सिटी, भिवाड़ी, राजस्थान - 301019	28.06.2021	₹. 11,73,238 (रुपए प्यारह लाख तिहतर हजार दो सौ अठ्ठातीस मात्र) 28.06.2021 के अनुसार

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चर्चा में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लॉ) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले(लॉ) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्गठन करने में अक्षम होने के कारण उधार लेने वाले(लॉ) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडों के भीतर निष्पादनपर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई हैं।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्वारा उधार लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लॉ) का आह्वान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागू, तथा शुल्कों सहित उधार स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संग्रहीत बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी उधार के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, "कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोर्टेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिडों के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिखोरिटाई क्रेडिटर्ड द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संग्रहीत बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता।"

सरफेसी अधिनियम की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिडों, पट्टे के माध्यम से अन्याया नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्ण लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित है।

इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड प्राधिकृत अधिकारी

infoedge
इंफो ऐज (इंडिया) लिमिटेड

CIN : L74899DL1995PLC068021 | पंजीकृत कार्यालय: जीएफ-12ए, 94, मेघदूत भवन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19
कॉर्पोरेट कार्यालय: बी-8, सेक्टर-132, नोएडा-201304 (उत्तर प्रदेश) | दूरभाष: 0120-3082000; फैक्स: 0120-3082095
वेब: <https://www.infoedge.in/>; ई-मेल: investors@naukri.com

शेयर प्रमाण पत्रों के हानि की सूचना

कंपनी के निम्नलिखित शेयर प्रमाण पत्र(त्रों) के गुण, स्थान से विलग जाने/चोरी हो जाने की सूचना प्राप्त हुई है और उक्त शेयर प्रमाण पत्र(त्रों) के पंजीकृत धारक(ओं) ने कंपनी से प्रतिकूल शेयर प्रमाण पत्र(त्रों) को जारी करने का अनुरोध किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी नीचे उल्लेखित व्यक्ति(ओं) को प्रतिकूल शेयर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आगे कार्यवाही करेगी, जब तक कि इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 15 दिनों के भीतर कंपनी को वैध आपत्ति प्राप्त नहीं होती है। एतद्वारा जनता को उपरोक्त शेयर प्रमाण पत्र खरीदने या व्यवहार के विरुद्ध चेतावनी दी जाती है। कंपनी द्वारा प्रतिकूल जारी होने के बाद मूल शेयर प्रमाण पत्र(त्रों) के संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

शेयर धारक का नाम	पृष्ठ सं.	शेयर का प्रकार	प्रमाण पत्र सं.	विशेष संख्या	शेयरों की संख्या
सुस्मिथा सैम थॉमस	283	इविटटी	800	54614922	54615321
	363	इविटटी	878	54615410	54615745

साथी व्यक्ति जो उक्त प्रमाण पत्र(त्रों) के संबंध में दावा करता है, उसे/उन्हें अपने सभी सहायक दस्तावेजों के कोर्ट कंपनी के पंजीकृत/कॉर्पोरेट पते पर अपना दावा दर्ज कराना होगा। यदि इस सूचना की प्रतीति से 15 दिनों के भीतर कोई वैध और औचित्यपूर्ण दावा प्राप्त नहीं होता है, तो कंपनी उधार सूचीबद्ध व्यक्ति को प्रतिकूल शेयर प्रमाण पत्र(त्रों) को जारी करने के लिए आगे कार्यवाही करेगी।

प्रतिकूल शेयर प्रमाण पत्र(त्रों) जारी करने के बाद, मूल शेयर प्रमाण पत्र(त्रों) रहें हो जाएंगे और मूल शेयर प्रमाण पत्र(त्रों) से संबंधित कोई भी व्यक्ति व्यवहार करेगा तो वो अपने जवाबदेही पर ऐसा करेगा और कंपनी किसी भी तरह से इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

निदेशक मंडल के आदेश से प्रति, इंफो ऐज (इंडिया) लिमिटेड (एमएम जैन)

वरिष्ठ उपाध्यक्ष-साधिविकार और कंपनी सचिव

दिनांक: 18 सितंबर, 2021 स्थान: नई दिल्ली

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपकरण
A Government of India Undertaking

ई-नीलामी सूचना

सिंडिकेट Syndicate

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 सहपठित सुरक्षित हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6